

मिट्टी के चूल्हे के इतने नुकसान, ये है पुराने ज़माने की पहचान।

1 घर में इतना धुआँ होता है कि रसोई काली हो जाती है।



चूल्हे से उठने वाला धुआँ चेफ़ड्रों में जाकर जमा होता है जिससे दम घुटता है और सांस की बीमारी होने का खतरा बन जाता है।

2



3 औखों में बहुत जलन रहती है और मोतियाबिंद का खतरा बन जाता है।



4 शरीर में थकान और सिर में भारी दंड़ रहता है।



5 खाना पकाने और चूल्हे की तैयारी में बहुत समय बर्बाद होता है।



6 रसोई में बहुत समय बिताने का दुष्प्रभाव यह होता है कि परिवार के लिए समय नहीं बच पाता है।



इसलिए

इनमें से कोई भी चूल्हा चुनिए और धुआँ-रहित रसोई को ओर बढ़िए।



उल्लगत चूल्हा



एल पी जी



बिजली वाला चूल्हा

स्वास्थ्य को नुकसान ना हो • रसोई रहे साफ
समय की खूब बचत • आसान उपयोग

अधिक जानकारी के लिए:

80-100-200-60

पर मिस्ड कॉल करें

